

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014—चैत्र 8, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2014

क्र. 14-वि. निर्वा.-चार-2014-254.—विधि मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं.

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक F H-11024 (2)/2014-Leg-II, दिनांक 29 मार्च, 2014.
2. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 464/2014(6), दिनांक 29 मार्च, 2014.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, 29 मार्च 2014—चैत्र 8, 1936 (शक)

अधिसूचना

का.आ.(अ).— पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट उक्त सारणी

के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं:—

सारणी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
असम	4-धुब्री 5-कोक्राझाड़ (अ.ज.जा.) 6-बारपेटा 7-गौहाटी 8-मंगलदाई 10-नौगोंग
बिहार	8-सुपौल 9-अररिया 10-किशनगंज 11-कटिहार 12-पूर्णियां 26-भागलपुर 27-बांका
छत्तीसगढ़	1-सरगुजा (अ.ज.जा.) 2-रायगढ़ (अ.ज.जा.) 3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.) 4-कोरबा 5-बिलासपुर 7-दुर्ग 8-रायपुर
जम्मू -कश्मीर	3-अनन्तनाग
झारखंड	1-राजमहल (अ.ज.जा.) 2-दुमका (अ.ज.जा.) 3-गोड्डा 7-धनबाद
मध्यप्रदेश	18-विदिशा 21-देवास (अ.जा.) 22-उज्जैन (अ.जा.) 23-मंदसौर 24-रतलाम (अ.ज.जा.) 25-धार (अ.ज.जा.) 26-इन्दौर 27-खरगौन (अ.ज.जा.) 28-खण्डवा 29- बैतूल (अ.ज.जा.)

(1)	(2)
महाराष्ट्र	1-नन्दुरबार (अ.ज.जा.) 2-धुले 3-जलगांव 4-रावेर 18-जालना 19-औरंगाबाद 20-दिन्डोरी (अ.ज.जा.) 21-नाशिक 22-पालघर (अ.ज.जा.) 23-भिवंडी 24-कल्याण 25-ठाणे 26-मुम्बई उत्तर 27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम 28-मुम्बई उत्तर-पूर्व 29-मुम्बई उत्तर-मध्य 30-मुम्बई दक्षिण मध्य 31-मुम्बई दक्षिण 32-रायगढ़
राजस्थान	8-अलवर 9-भरतपुर (अ.जा.) 10-करौली-धौलपुर (अ.जा.) 11-दौसा (अ.ज.जा.) 12-टोंक-सवाई माधोपुर
तमिलनाडु	1-तिरुवल्लुर (अ.जा.) 2-चेन्नई उत्तर 3-चेन्नई दक्षिण 4-चेन्नई केंद्रीय 5-श्रीपेरुम्बुडुर 6-कांचीपुरम् (अ.जा.) 7-अराकोन्नम 8-वेल्लोर 9-कृष्णागिरी 10-धर्मापुरी 11-तिरुवन्नामलाई 12-अरानी 13-विलुपुरम् (अ.जा.) 14-कल्लाकुरिची 15-सलेम 16-नामाक्कल 17-इरोड 18-तिरुप्पुर 19-नीलगिरि (अ.जा.)

(1)	(2)
	20-कोयम्बटूर
	21-पोल्लाची
	22-डिण्डीगुल
	23-करूर
	24-तिरुचिरापल्ली
	25-पेरम्बलुर
	26-कुड्डालोर
	27-चिदम्बरम (अ.जा.)
	28-मइलादुथुरई
	29-नागापट्टिनम (अ.जा.)
	30-थन्जावुर
	31-शिवगंगा
	32-मदुरई
	33-थेनी
	34-विरुघुनगर
	35-रामानाथपुरम्
	36-थूथुक्कुडी
	37-टेनकासी (अ.जा.)
	38-तिरुनेलवेली
	39-कन्याकुमारी
उत्तर प्रदेश	16-हाथरस(अ.जा.)
	17-मथुरा
	18-आगरा (अ.जा.)
	19-फतेहपुर सीकरी
	20-फिरोजाबाद
	21-मैनपुरी
	22-एटा
	31-हरदोई (अ.जा.)
	40-फर्रुखाबाद
	41-इटावा (अ.जा.)
	42-कन्नौज
	44-अकबरपुर
पश्चिम बंगाल	5-रायगंज
	6-बालूरघाट
	7-माल्दहा उत्तर
	8-माल्दहा दक्षिण
	9-जंगीपुर
	11-मुर्शिदाबाद
पुडुचेरी	1-पुडुचेरी

हस्ता./-

(पी. के. मल्होत्रा)

सचिव, भारत सरकार.

[फा. एच. 11024(2)/2014-वि.2]

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law and Justice
Legislative Department

New Delhi, the 29th March, 2014 Chaitra 8, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

S.O. (E) WHEREAS, it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House of the People;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territories, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamilnadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Puducherry, as specified in column (1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:—

TABLE

State/Union territory (1)	Parliamentary Constituency (2)
ASSAM	4-Dhubri 5-Kokrajhar (ST) 6-Barpeta 7-Gauhati 8-Mangaldoi 10-Nowgong
BIHAR	8-Supaul 9-Araria 10-Kishanganj 11-Katihar 12-Purnia 26-Bhagalpur 27-Banka
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST) 2-Raigarh (ST) 3-Janjgir-Champa (SC) 4-Korba 5-Bilaspur 7-Durg 8-Raipur
JAMMU & KASHMIR	3-Anantnag
JHARKHAND	1-Rajmahal (ST) 2-Dumka (ST) 3-Godda 7-Dhanbad
MADHYA PRADESH	18-Vidisha

(1)	(2)
	21-Dewas (SC) 22-Ujjain (SC) 23-Mandsour 24-Ratlam (ST) 25-Dhar (ST) 26-Indore 27-Khargone (ST) 28-Khandwa 29-Betul (ST)
MAHARASHTRA	1-Nandurbar (ST) 2-Dhule 3-Jalgaon 4-Raver 18-Jalna 19-Aurangabad 20-Dindori (ST) 21-Nashik 22-Palghar (ST) 23-Bhiwandi 24-Kalyan 25-Thane 26-Mumbai North 27-Mumbai North-West 28-Mumbai North-East 29-Mumbai North-Central 30-Mumbai South-Central 31-Mumbai South 32-Raigad
RAJASTHAN	8-Alwar 9-Bharatpur (SC) 10-Karauli-Dholpur (SC) 11-Dausa (ST) 12-Tonk-Sawai Madhopur
TAMILNADU	1-Tiruvallur (SC) 2-Chennai North 3-Chennai South 4-Chennai Central 5-Sriperumbudur 6-Kancheepuram (SC) 7-Arakkonam 8-Vellore 9-Krishnagiri 10-Dharmapuri 11-Tiruvannamalai 12-Arani 13-Viluppuram (SC) 14-Kallakurichi 15-Salem 16-Namakkal

(1)	(2)
	17-Erode
	18-Tiruppur
	19-Nilgiris (SC)
	20-Coimbatore
	21-Pollachi
	22-Dindigul
	23-Karur
	24-Tiruchirappalli
	25-Perambalur
	26-Cuddalore
	27-Chidambaram (SC)
	28-Mayiladuthurai
	29-Nagapattinam (SC)
	30-Thanjavur
	31-Sivaganga
	32-Madurai
	33-Theni
	34-Virudhunagar
	35-Ramanathapuram
	36-Thoothukkudi
	37-Tenkasi (SC)
	38-Tirunelveli
	39-Kanniyakumari
UTTAR PRADESH	16-Hathras (SC)
	17-Mathura
	18-Agra (SC)
	19-Fatehpur Sikari
	20-Firozabad
	21-Mainpuri
	22-Etah
	31-Hardoi (SC)
	40-Farrukhabad
	41-Etawah (SC)
	42-Kannauj
	44-Akbarpur
WEST BENGAL	5-Raiganj
	6-Balurghat
	7-Maldaha Uttar
	8-Maldaha Dakshin
	9-Jangipur
	11-Murshidabad
PUDUCHERRY	1-Puducherry

Sd/-
(P.K. MALHOTRA)
Secretary to the Government of India
[F.H. 11024/2/2014-Leg.II]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2014—8 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 464-2014 (6).—यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 29 मार्च, 2014 (शनिवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, :—

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से नियत करता है,—

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 5 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 7 अप्रैल, 2014 (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 9 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा; और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा, और : 28 मई, 2014 (बुधवार)

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा:—

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम (1)	मतदान की तारीख (2)	मतदान का समय (3)
1-असम		
4-धुब्री	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
5-कोक्राझाड़ा (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
6-बारपेटा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
7-गौहाटी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
8-मंगलदाई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
10-नौगोंग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक

(1)

(2)

(3)

2-बिहार

8-सुपौल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
9-अररिया	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
10-किशनगंज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
11-कटिहार	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
12-पूर्णियाँ	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
26-भागलपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
27-बाँका	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

3-छत्तीसगढ़

1-सरगुजा (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
4-कोरबा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
5-बिलासपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
7-दुर्ग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
8-रायपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

4-जम्मू व कश्मीर

3-अनन्तनाग	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
------------	---------------------------	---------------------------------------

5-झारखण्ड

1-राजमहल (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक
2-दुमका (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक
3-गोड्डा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक
7-धनबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक

6-मध्यप्रदेश

18-विदिशा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
21-देवास (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
22-उज्जैन (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
23-मंदसौर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
24-रतलाम (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
25-धार (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
26-इन्दौर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
27-खरगौन (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
28-खण्डवा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
29-बैतूल (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

(1)

(2)

(3)

7-महाराष्ट्र

1-नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
2-धुले	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
3-जलगांव	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
4-रावेर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
18-जालना	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
19-औरंगाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
20-दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
21-नाशिक	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
22-पालघर (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
23-भिवंडी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
24-कल्याण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
25-ठाणे	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
26-मुम्बई उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
28-मुम्बई उत्तर-पूर्व	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
29-मुम्बई उत्तर-मध्य	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
30-मुम्बई दक्षिण-मध्य	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
31-मुम्बई दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
32-रायगड	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

8-राजस्थान

8-अलवर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
9-भरतपुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
10-करौली-धौरपुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
11-दौसा (अ.ज.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
12-टोंक-सवाई माधोपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

9-तमिलनाडू

1-तिरुवल्लुर (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
2-चेन्नई उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
3-चेन्नई दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
4-चेन्नई केन्द्रीय	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
5-श्रीपेरुम्बुडुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
6-कांचीपुरम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
7-अराकोनम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
8-वेल्लोर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
9-कृष्णागिरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
10-धर्मापुरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
11-तिरुवन्नामलाई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
12-अरानी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
13-विलुपुरम् (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
14-कल्लाकुरिची	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
15-सलेम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
16-नामाक्कल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
17-इरोड	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
18-तिरुप्पुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
19-नीलगिरि (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
20-कोयम्बटूर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
21-पोल्लाची	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
22-डिण्डीगुल	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
23-करूर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
24-तिरुचिरापल्ली	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
25-पेरम्बलुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
26-कुड्डालोर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
27-चिदम्बरम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
28-मड्लादुथरई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
29-नागापट्टिनम (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
30-थन्जापुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
31-शिवगंगा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
32-मदुरई	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
33-थेनी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
34-विरूधुनगर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
35-रामानाथपुरम	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
36-थूथुक्कुडी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
37-टेनकासी (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
38-तिरूनेलवेली	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
39-कन्याकुमारी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

10-उत्तर प्रदेश

16-हाथरस (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
17-मथुरा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
18-आगरा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
19-फतेहपुर सीकरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
20-फिरोजाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
21-मैनपुरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
22-एटा	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
31-हरदोई (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
40-फर्रुखाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
41-इटवा (अ.जा.)	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
42-कन्नौज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
44-अकबरपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
11-पश्चिम बंगाल		
5-रायगंज	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
6-बालूरघाट	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
7-माल्हादा उत्तर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
8-माल्हादा दक्षिण	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
9-जंगीपुर	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
11-मुर्शिदाबाद	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक
12-पुडुचेरी		
1-पुडुचेरी	24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक

आदेश से,

हस्ता./-

(सुमित मुखर्जी)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated the 29th March, 2014—8 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464-2014 (6).— WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 29th March 2014 (Saturday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:—

2. NOW, THEREFORE, in pusuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

- (A) Appoints, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,—
- the 5th April, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;
 - the 7th April, 2014 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
 - the 9th April, 2014 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - the date, specified in column (2) of the SCHEDULE below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and
 - the 28th May, 2014 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

(B) Fixes the hours specified in Column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election:—

SCHEDULE

Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll

No. & Name of Parliamentary Constituency (1)	Date of Poll (2)	Hours of Poll (3)
1—ASSAM		
4-Dhubri	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
5-Kokrajhar (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
6-Barpeta	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
7-Gauhati	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
8-Mangaldoi	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
10-Nawgong	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 05:00 PM
2—BIHAR		
8-Supaul	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
9-Araria	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
10-Kishanganj	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
11-Katihar	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
12-Purnia	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
26-Bhagalpur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
27-Banka	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
3—CHHATTISGARH		
1-Surguja (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
2-Raigarh (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
3-Janjgir-Champa (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
4-Korba	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
5-Bilaspur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
7-Durg	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
8-Raipur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
4—JAMMU & KASHMIR		
3-Anantnag	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
5—JHARKHAND		
1-Rajmahal (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 04:00 PM
2-Dumka (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 04:00 PM
3-Godda	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 04:00 PM
7-Dhanbad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 04:00 PM
6—MADHYA PRADESH		
18-Vidisha	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
21-Dewas (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

(1)	(2)	(3)
22-Ujjain (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
23-Mandsour	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
24-Ratlam (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
25-Dhar (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
26-Indore	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
27-Khargone (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
28-Khandwa	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
29-Betul (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

7—MAHARASHTRA

1-Nandurbar (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
2-Dhule	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
3-Jalgaon	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
4-Raver	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
18-Jalna	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
19-Aurangabad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
20-Dindori (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
21-Nashik	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
22-Palghar (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
23-Bhiwandi	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
24-Kalyan	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
25-Thane	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
26-Mumbai North	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
27-Mumbai North-West	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
28-Mumbai North-East	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
29-Mumbai North-Central	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
30-Mumbai South-Central	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
31-Mumbai South	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
32-Raigad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

8—RAJASTHAN

8-Alwar	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
9-Bharatpur (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
10-Karauli-Dholpur (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
11-Dausa (ST)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
12-Tonk-Sawai Madhopur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

9—TAMIL NADU

1-Tiruvallur (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
2-Chennai North	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
3-Chennai South	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
4-Chennai Central	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
5-Sriperumbudur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
6-Kancheepuram (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
7-Arakkonam	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
8-Vellore	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
9-Krishangiri	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
10-Dharmapuri	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
11-Tiruvannamalai	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
12-Arani	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
13-Viluppuram (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
14-Kallakurichi	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
15-Salem	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
16-Namakkal	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
17-Erode	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

(1)	(2)	(3)
18-Tiruppur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
19-Nilgiris (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
20-Coimbatore	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
21-Pollachi	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
22-Dindigul	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
23-Karur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
24-Tiruchirappalli	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
25-Perambalur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
26-Cuddalore	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
27-Chidambaram (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
28-Mayliaduthurai	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
29-Nagapattinam (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
30-Thanjavur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
31-Sivaganga	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
32-Madurai	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
33-Theni	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
34-Virudhunagar	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
35-Ramanathapuram	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
36-Thoothukkudi	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
37-Tenkasi (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
38-Tirunelveli	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
39-Kanniyakumari	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
10—UTTAR PRADESH		
16-Hathras (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
17-Mathura	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
18-Agra (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
19-Fatehpur Sikri	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
20-Firozabad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
21-Mainpuri	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
22-Etah	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
31-Hardoi (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
40-Farrukhabad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
41-Etawah (SC)	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
42-Kannauj	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
44-Akbarpur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
11—WEST BENGAL		
5-Raiganj	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
6-Balurghat	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
7-Maldaha Uttar	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
8-Maldaha Dakshin	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
9-Jangipur	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
11-Murshidabad	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM
12—PUDUCHERRY		
1-Puducherry	24th April, 2014 (Thursday)	07:00 AM to 06:00 PM

By order,
Sd./-
(SUMIT MUKHERJEE)
Secretary to the
Election Commission of India.